



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 212]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 8, 2012/माघ 19, 1933

No. 212]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 8, 2012/MAGHA 19, 1933

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2012

का.आ. 239(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 3 जून, 2011 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1291(अ), तारीख 20 अप्रैल, 2011 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, उत्तर प्रदेश राज्य के महामायानगर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्र, अर्थात् दैनिक जागरण, तारीख 29 जून, 2011 और अमर उजाला, तारीख 29 जून, 2011 में प्रकाशित किया गया था;

और, सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं किया गया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

## अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के महामायानगर जिले में प्रस्तावित विशेष रेलवे परियोजना, अर्थात्, पूर्वी समर्पित मालभाड़ा कॉरीडोर के लिए अर्जित की जान वाली भूमि का सरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण

क्र०सं०	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण सं०	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार	हेक्टेअर/वर्ग मीटर में क्षेत्रफल	प्रभावित काश्तकार का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	सादाबाद	(1) महारा	33	निजी	कृषि	0.0010	प्रमोद कुमार न. 6 वर्ष पुत्र छब्बालाल संरक्षिका माता श्रीमती उर्मिला
			512	निजी	कृषि	0.0100	देवेन्द्र सिंह, रामवृजेश, राजेश कुमार पुत्रगण रमेश, वैकुण्ठी देवी पत्नी रमेश
			10	निजी	कृषि	0.0040	अशोक कुमार, विमलकुमार, दुर्गाप्रसाद पुत्रगण बंगाली
			136	निजी	कृषि	0.0030	महेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र जैपाल सिंह
			764	निजी	कृषि	0.0090	जयपाल सिंह पुत्र दुरवीन सिंह
			757	निजी	कृषि	0.0590	राधेश्याम पुत्र जानकी प्रसाद
			440	निजी	कृषि	0.0190	बाबूराम पुत्र पोखा
			434	निजी	कृषि	0.0070	गीतम सिंह पुत्र डल्ला, ओम प्रकाश, राजवीर पुत्रगण अन्ताराम, नारायण सिंह पुत्र नन्द किशोर, रामदयाल, पप्पू पुत्रगण चौखा, लदूरी सिंह, खजान सिंह, राधेश्याम, रामसाहय पुत्रगण दाताराम, दुर्योधन, महेन्द्र सिंह पुत्रगण रोशनलाल, लाल सिंह पुत्र हीरालाल, ज्वाला प्रसाद पुत्र चतुरी, मुन्ना लाल नाब० उम्र 6 वर्ष सं० श्रीमती गोमती देवी पुत्र बाबूलाल
			423	निजी	कृषि	0.0160	गीतम सिंह पुत्र डालचंद, रामदयाल, बाबूलाल पुत्रगण चौखेलाल
			424	निजी	कृषि	0.0130	ओमप्रकाश पुत्र अन्तराम
			426	निजी	कृषि	0.0750	दुर्योधन, महेन्द्र सिंह पुत्रगण रोशनलाल
			414	निजी	कृषि	0.0080	लदूरी सिंह पुत्र दाताराम
			360	निजी	कृषि	0.0180	लक्ष्मी नारायण, दीनदयाल पुत्र पूरनचंद, शीलादेवी पत्नी जयप्रकाश, हरिओम, ओमप्रकाश पुत्रगण सूरजपाल, सत्यप्रकाश पुत्र हृष्यलाल
			139	निजी	कृषि	0.0600	साहब सिंह पुत्र मोहनलाल
			140	निजी	कृषि	0.0030	स्वराज प्रकाश पुत्र बृजलाल, राधाराम, अतरसिंह, निरंजन सिंह, भरत सिंह पुत्रगण कुंदन सिंह, साहब सिंह, हाकिम सिंह पुत्रगण मोहनलाल, राजेंद्र सिंह, विजेन्द्र सिंह पुत्रगण रामस्वरूप, मक्खन सिंह पुत्र शादीलाल, पप्पू उर्फ रघुवीर पुत्र पन्ना, निहाल सिंह पुत्र हरप्रसाद
			110	निजी	कृषि	0.0250	भगवती प्रसाद पुत्र घनश्याम
			25	निजी	कृषि	0.0120	बाबूलाल पुत्र खुशीलाल
			15	निजी	कृषि	0.0380	साधू, रामप्रसाद, जोगी, परपू पुत्रगण देवसुख, उमेश पुत्र साधू

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			362	निजी	कृषि	0.0560	रुपेन्द्रकुमार, दिलीपकुमार, सतेन्द्रकुमार, सुशीलकुमार पुत्र कृष्णकुमार
			129	निजी	कृषि	0.0440	उदयमानसिंह पुत्र निहालसिंह
			130	निजी	कृषि	0.0080	अतरसिंह पुत्र कुन्दनसिंह
			131	निजी	कृषि	0.0080	निरंजनसिंह पुत्र कुन्दन
			496	निजी	कृषि	0.0120	मुरीसिंह, उम्मेदसिंह, राजकुमार, संजीव कुमार पुत्र जयवीरसिंह
		(2) सेंदरिया	351	निजी	कृषि	0.0100	नरेश कुमार पुत्र गंधार सिंह, मुनेश कुमार पुत्र तुरसी
		(3) मानिकपुर	190	निजी	कृषि	0.0060	श्रीमती लौग श्री विधवा पत्नी राजन सिंह, श्रीमती रामबेटी पत्नी कप्तान सिंह
			278	निजी	कृषि	0.4080	रामजी लाल पुत्र नेतराम
			268	निजी	कृषि	0.0170	दिनेशचंद्र, वीरेन्द्र कुमार, विनोद कुमार, सजय कुमार पुत्रगण रामप्रकाश, मिरीशचंद्र पुत्र गीतम सिंह, हरिओम पुत्र गुलाब सिंह
			191	निजी	कृषि	0.0190	श्रीमती लौग श्री पत्नी महेंद्र सिंह
			198	निजी	कृषि	0.0880	सुग्रीव सिंह, सुधीर कुमार, मनोज कुमार, नीरज कुमार वयस्क, कन्हैया 14 वर्ष, राहुल 12 वर्ष पुत्रगण डोरीलाल संरक्षिका माता शारदादेवी, शारदा देवी पत्नी डोरीलाल
			269	निजी	कृषि	0.2490	लोटन सिंह पुत्र सामरे
			193	निजी	कृषि	0.0200	नेत्रपाल पुत्र महेन्द्रसिंह
		(4) मकनपुर	324	निजी	कृषि	0.0040	सुरेशचंद्र, रमेशचंद्र, दामोदर, भूरी सिंह पुत्रगण तुलाराम, कमल सिंह, लेखराज पुत्रगण रामलाल, सत्य प्रकाश, विनोद कुमार पुत्रगण गया प्रसाद, तुलसा देवी पत्नी गया प्रसाद
			429	निजी	कृषि	0.0120	विमल कुमार, निर्मल कुमार उर्फ रिन्कू न. 17 वर्ष पुत्रगण बेदराम, संरक्षिका माता सोनदेवी, सोनदेवी पत्नी वेदराम, राजकुमार न. 14 वर्ष, कालीचरन न. 11 वर्ष, रघुवीर सिंह न. 8 वर्ष, सोनू न. 5 वर्ष, संजीव न. 1 वर्ष पुत्रगण ब्रह्मदेव सिंह, संरक्षिका माता गंगाश्री, गंगाश्री पत्नी ब्रह्मदेव, रामपाल, राजवीर पुत्रगण परमसुख, दीपक न. 4 वर्ष पुत्र जयपाल सिंह
			362	निजी	कृषि	0.0450	समुन्द पुत्र नवाब सिंह
			366	निजी	कृषि	0.0370	सुरेशचंद्र, रमेशचंद्र, दामोदर, भूरी सिंह पुत्रगण तुलाराम, सत्यप्रकाश, विनोद कुमार पुत्रगण गयाप्रसाद, विमला देवी पत्नी लेखराज
			322	निजी	कृषि	0.0220	श्यामवीर सिंह पुत्र भगवान सिंह, तेजवीर सिंह, मुकेश कुमार, राजन सिंह, रनवीर सिंह, ओमवीर सिंह पुत्रगण गोधन सिंह, श्रीमती प्रेमादेवी पत्नी गोधन सिंह, राजन सिंह, नेत्रपाल महीपाल पुत्रगण बदन सिंह, कृष्ण कुमार, दीनबन्धू पुत्रगण महेशचन्द्र दीक्षित

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			430	निजी	कृषि	0.4440	राजकुमार नाबा० उम्र 14 वर्ष, कालीचरन नाबा० 11 वर्ष, रघुवीर सिंह नाबा० 8 वर्ष, सोनू नाबा० उम्र 5 वर्ष, संजीव नाबा० उम्र 1 वर्ष संर० गंगाश्री माता पुत्रगण बृहमदेव, श्रीमती गंगादेवी पत्नी बृहमदेव, रामपाल पुत्र परमसुख, दीपक नाबा० उम्र 4 वर्ष संर० पिता स्वयं पुत्र जयपाल सिंह, विमल कुमार, निर्मलकुमार उर्फ रिकू पुत्रगण वेदराम, श्रीमती सोनदेवी पत्नी वेदराम, श्रीमती बैकुण्ठी देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण
			428	निजी	कृषि	0.0740	बलवीरसिंह पुत्र रामचन्द्र
			421	निजी	कृषि	0.1100	श्रीमतीसरोजदेवी पत्नी जयन्तीप्रसाद
		(5) इसोदा	624	निजी	कृषि	0.0240	श्वोराज सिंह पुत्र रतन सिंह, धर्मेश कुमारी पत्नी बनी सिंह
			623	निजी	कृषि	0.0130	विजेंद्र सिंह पुत्र रघुवीर सिंह
			612	निजी	कृषि	0.0510	सुनील कुमार पुत्र शंभूनाथ
			609	निजी	कृषि	0.0170	सुनील कुमार, सुशील कुमार पुत्रगण शंभूनाथ
			605	निजी	कृषि	0.0150	दलवीर शाह पुत्र राजन शाह
			602	निजी	कृषि	0.0360	ओमवीर शाह पुत्र राजन शाह
		(6) कोकना खुर्द	80	निजी	कृषि	0.0310	रघुराज सिंह, सोबरन सिंह, दिलीप सिंह पुत्रगण गिरदम सिंह
		(7) खेड़िया	184	निजी	कृषि	0.0180	फूल सिंह पुत्र मूलचंद्र, नाथूराम पुत्र मोहन सिंह, जय सिंह पुत्र देवीराम
			190	निजी	कृषि	0.0010	सूरजपाल, राजवीर पुत्रगण होती, महाराज सिंह, भगवती प्रसाद, तुरसनपाल सिंह, पवन कुमार पुत्रगण स्व० रोशनलाल, मौहरश्री देवी पत्नी रोशनलाल
			192	निजी	कृषि	0.0090	सूरजपाल, राजवीर पुत्रगण होती, महाराज सिंह, भगवती प्रसाद, तुरसनपाल सिंह, पवन कुमार पुत्रगण स्व० रोशनलाल, मौहरश्री देवी पत्नी रोशनलाल
			193	निजी	कृषि	0.0870	फूल सिंह पुत्र मूलचंद्र, नाथूराम पुत्र मोहन सिंह, जय सिंह पुत्र देवीराम
			185	निजी	कृषि	0.2020	फूल सिंह पुत्र मूलचंद्र, नाथूराम पुत्र मोहन सिंह, जय सिंह पुत्र देवीराम
		(8) भुकलारा	339	निजी	कृषि	0.0040	श्वो प्रसाद पुत्र किशोरी
			367	निजी	कृषि	0.0080	सिरेश कुमार न. 6 वर्ष संरक्षिका माता राजकुमारी पुत्र सुरेशचंद्र, राजकुमारी पत्नी सुरेशचंद्र, अरविन्द पुत्र वासुदेव, अमर सिंह, बलवीर सिंह, शंकरपाल, रामप्रकाश पुत्रगण जोरावर
			340	निजी	कृषि	0.0180	करन सिंह पुत्र धीरी
			553	निजी	कृषि	0.0110	कालीचरन, रतन सिंह, रामबाबू पुत्रगण डोरीलाल
			377	निजी	कृषि	0.0130	किशन सिंह पुत्र काशीराम, हरी सिंह, सतेन्द्र पुत्रगण विजय सिंह, ईश्वरी देवी पत्नी विजय सिंह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			381	निजी	कृषि	0.0090	रामचंद्र, श्यामलाल, करन सिंह, गीतम पुत्रगण चुन्नी, सोरन, श्रीकृष्ण, चन्द्रभान पुत्रगण कालीचरन
			382	निजी	कृषि	0.0250	रामचंद्र, श्यामलाल, करन सिंह, गीतम पुत्रगण चुन्नी, सोरन, श्रीकृष्ण, चन्द्रभान पुत्रगण कालीचरन
			399	निजी	कृषि	0.1840	शकूर मुहम्मद पुत्र रामस्वरूप
			404	निजी	कृषि	0.0364	किशन सिंह पुत्र काशीराम, सतेन्द्र पुत्र विजय सिंह, कृष्णपाल सिंह पुत्र झम्न सिंह
			187	निजी	कृषि	0.0200	रामचरन, चरन सिंह पुत्रगण लालाराम, तिलक सिंह पुत्र रामजीलाल
			190	निजी	कृषि	0.0110	योगेश कुमार न. 13 वर्ष पुत्र चोखेलाल संरक्षिका माता मायादेवी, मायादेवी पत्नी चोखेलाल, जगदीश प्रसाद पुत्र देवजीत
			193	निजी	कृषि	0.0950	गिराज कौर पत्नी रामजी लाल, सुषमा देवी पत्नी शिव सिंह
			230	निजी	कृषि	0.0030	धर्मेन्द्र कुमार पुत्र रामजीलाल, श्रीमती भगवानदेवी पत्नी स्व० रामजीलाल, सुमित्रा देवी पत्नी महेंद्रपाल सिंह
			143	निजी	कृषि	0.0340	रामचरन, चरन सिंह पुत्रगण लालाराम, तिलक सिंह पुत्र रामजीलाल
2	हाथरस	(1) ऐहन	978	निजी	कृषि	0.1512	रतन सिंह पुत्र देवजीत
		(2) पुरा खुर्द	680	निजी	कृषि	0.0710	रामेश्वर, दाताराम, प्रभूदयाल, मुन्नालाल पुत्रगण गेंदालाल
			685	निजी	कृषि	0.0450	राधेश्याम पुत्र नौयता
			701	निजी	कृषि	0.1996	गिराज किशोर, नेकसे राम पुत्रगण बसन्ता
			723	निजी	कृषि	0.0094	मिथलेश पत्नी लक्ष्मीनारायन
		(3) पुरा कला	56	निजी	कृषि	0.0020	बच्चू सिंह पुत्र कालीचरन, पतिराम पुत्र करन सिंह, श्रीमती मीना पत्नी बच्चू सिंह, महावीर सिंह, महेंद्र सिंह पुत्रगण सामन्ती सिंह
			64	निजी	कृषि	0.0170	रामस्वरूप पुत्र केहरिया
			704	निजी	कृषि	0.0960	किशन गोपाल सिंह पुत्र राम स्वरूप
			366	निजी	कृषि	0.0020	श्रीमती कमलेश पत्नी गीतम सिंह, जावित्री देवी पत्नी दोजीराम
			361	निजी	कृषि	0.0250	टैन साहब पुत्र सिकन्दर खां
			483	निजी	कृषि	0.0070	सुरेंद्र कुमार पुत्र देवलाल
			686	निजी	कृषि	0.0010	भूपाल, लक्ष्मी नारायण पुत्रगण नोरंगीलाल, रामरतन सिंह पुत्र विरेंद्र सिंह, भीम सिंह, झम्न सिंह पुत्रगण चिरंजीलाल, दोजीराम, बिहारी लाल पुत्रगण सिध जी, उल्फत, भूप सिंह पुत्रगण सोनपाल, हरदयाल सिंह, पीताम्बर सिंह पुत्रगण छदम्मी लाल, ताराचन्द्र, लाल सिंह, अशोक कुमार, चन्दन सिंह पुत्रगण पन्नालाल
			705	निजी	कृषि	0.0120	किशन गोपाल सिंह पुत्र राम स्वरूप

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			706	निजी	कृषि	0.0200	मुकेश कुमार, सुरेन्द्र कुमार पुत्रगण लालसिंह, मुन्नीदेवी पत्नी लालसिंह
			707	निजी	कृषि	0.0810	भूपाल, लक्ष्मी नारायण पुत्रगण नोरंगीलाल, रामरतन सिंह पुत्र विरेंद्र सिंह, भीम सिंह पुत्र चिरंजीलाल गायत्रीदेवी पत्नी यादराम बिहारी लाल पुत्र सिध जी, उत्कल, भूप सिंह पुत्रगण सोनपाल, जयप्यारीदेवी पत्नी किशनलाल ताराचन्द्र, लाल सिंह, अशोक कुमार, प्रेमशंकर पुत्र भगवान सिंह
			685	निजी	कृषि	0.1210	भूपाल, लक्ष्मी नारायण पुत्रगण नोरंगीलाल, रामरतन सिंह पुत्र विरेंद्र सिंह, भीम सिंह पुत्र चिरंजीलाल गायत्रीदेवी पत्नी यादराम बिहारी लाल पुत्र सिध जी, उत्कल, भूप सिंह पुत्रगण सोनपाल, जयप्यारीदेवी पत्नी किशनलाल ताराचन्द्र, लाल सिंह, अशोक कुमार, प्रेमशंकर पुत्र भगवान सिंह
			688	निजी	कृषि	0.1200	भूपाल, लक्ष्मी नारायण पुत्रगण नोरंगीलाल, रामरतन सिंह पुत्र विरेंद्र सिंह, भीम सिंह पुत्र चिरंजीलाल गायत्रीदेवी पत्नी यादराम बिहारी लाल पुत्र सिध जी, उत्कल, भूप सिंह पुत्रगण सोनपाल, जयप्यारीदेवी पत्नी किशनलाल ताराचन्द्र, लाल सिंह, अशोक कुमार, प्रेमशंकर पुत्र भगवान सिंह
			689	निजी	कृषि	0.0500	मीहर सिंह पुत्र नन्तू सिंह
			682	निजी	कृषि	0.4100	मीहर सिंह पुत्र नन्तू सिंह
			476	निजी	कृषि	0.0340	सलीम पुत्र सिकन्दर
			61	निजी	कृषि	0.4630	रामस्वरूप पुत्र केहरिया, रमेशचन्द्र पुत्र बलवन्तसिंह
		(4) वीरनगर	85	निजी	कृषि	0.0850	मुन्नी देवी शर्मा उर्फ माधुरी शर्मा पत्नी स्व० महेश चन्द्र शर्मा
			99	निजी	कृषि	0.0010	मूलचंद शर्मा पुत्र राधा किशन शर्मा, नरेंद्र कुमार शर्मा, विजय कुमार शर्मा पुत्रगण राजकुमार शर्मा
			42	निजी	कृषि	0.0930	राजकुमारी पत्नी मूलचंद
			41	निजी	कृषि	0.3900	प्रेमपाल पुत्र छततरपाल
			48	निजी	कृषि	0.0090	फतेह सिंह पुत्र दीलतराम, पुष्पा देवी पत्नी फतेह सिंह
			138	निजी	कृषि	0.0080	अकेश कुमार, रवेन्द्र कुमार पुत्रगण बनवारी लाल, मेघश्याम पुत्र मन्खन, रामरती पत्नी कोमलप्रसाद
			39	निजी	कृषि	0.0020	बाबूलाल पुत्र छततरपाल
			40	निजी	कृषि	0.0800	विजयपाल पुत्र छततरपाल
			49	निजी	कृषि	0.0180	रवेन्द्र कुमार, यतेश कुमार पुत्रगण मूलचन्द
			90	निजी	कृषि	0.1650	श्रीनिवास पुत्र रघुनन्दन
			145	निजी	कृषि	0.1250	जसवन्त सिंह पुत्र डमबर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			156	निजी	कृषि	0.0230	महेन्द्रपाल सिंह, योगेन्द्रपाल सिंह, ओमप्रकाश पुत्रगण सुन्नीलाल, रवेन्द्रकुमार, शिशुपाल, रोहिताश पुत्रगण रामप्रसाद, श्रीमती जलदेवी विधवा रामप्रसाद, रामचन्द्र, गुलाबसिंह, पुत्रगण भूरीसिंह, चन्द्रपाल पुत्र तेजसिंह, जसवन्त पुत्र डम्बर, नारायणसिंह, दुलीचन्द्र पुत्रगण दीपचन्द्र, राजेन्द्र सिंह या०, उमेशचन्द्र ना० 11 वर्ष पुत्रगण होलीलाल स्त्री भूदेवी माता, श्रीमती भूदेवी पत्नी स्त्री होलीलाल, मोरमुकुट, प्रमोद कुमार पुत्रगण शंकरलाल
			157	निजी	कृषि	0.0300	कु० पूनम पुत्री विजय पाल
3	सासनी	(1) लुटसान	232	निजी	कृषि	0.0360	दुर्जन सिंह पुत्र धर्म सिंह, रवेन्द्र सिंह, सत्यपाल सिंह पुत्रगण सुखराम सिंह
			231	निजी	कृषि	0.0120	मदन पुत्र मशी चरन
			245	निजी	कृषि	0.9080	निहाल सिंह, रामदयाल पुत्रगण गोकुल सिंह, रवेन्द्र सिंह, सत्यपाल सिंह पुत्रगण सुखराम सिंह, हर देवी पत्नी महेन्द्र सिंह
			779	निजी	कृषि	0.1240	राम सिंह, केशव देव पुत्रगण यादराम
			781	निजी	कृषि	0.0400	सुखराम पुत्र डालचंद्र,
			781	निजी	कृषि	0.0400	बाबूलाल पुत्र घूरे सिंह
			783	निजी	कृषि	0.0402	नेकसा पुत्र मुरली
							जैनुद्दीन पुत्र इमदाद अली
							खेमकरन पुत्र इमदाद अली
							केशवदेव पुत्र रामस्वरूप
							ईदा पुत्र रामलाल
							मोहन सिंह न. 15 वर्ष, तेज सिंह न. 13 वर्ष, राजन सिंह न. 11 वर्ष, कान्हा न. 5 वर्ष पुत्रगण सोरन सिंह, संरशिका माता मीरा देवी पत्नी सोरन सिंह, श्रीमती मीरादेवी पत्नी स्त्री सोरन सिंह
			783/2	निजी	कृषि	0.0402	शंकरलाल पुत्र सुखराम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			783	निजी	कृषि	0.0406	शोभाराम, राजपाल, मिहीलाल पुत्रगण रामलाल, राजू, रामखिलाडी पुत्रगण ईश्वरी
			784	निजी	कृषि	0.0705	कुसमा देवी पत्नी महताब सिंह
			784	निजी	कृषि	0.0705	कालीचरण पुत्र सुखराम
			787	निजी	कृषि	0.0050	कुसमा देवी पत्नी महताब सिंह
			787	निजी	कृषि	0.0060	कालीचरण पुत्र सुखराम
		(2) सिताहरी	77	निजी	कृषि	0.0024	लालाराम, चन्द्रपाल पुत्रगण नथाराम
			93	निजी	कृषि	0.1890	मैदा सिंह पुत्र ख्यालीराम
			94	निजी	कृषि	0.0070	दुर्जन सिंह पुत्र बाबू सिंह
			130	निजी	कृषि	0.0070	दुर्जन सिंह पुत्र बाबू सिंह
			96	निजी	कृषि	0.0900	दुर्जन सिंह पुत्र बाबू सिंह, राजकुमारी पत्नी नन्नु सिंह
			259	निजी	कृषि	0.1080	रेशमपाल सिंह पुत्र एदल सिंह
			339	निजी	कृषि	0.1080	कुमारी केला पुत्री बाबूलाल
			327	निजी	कृषि	0.2160	शकुन्तला देवी पत्नी लालताप्रसाद
		(3) विरस	495	निजी	कृषि	0.0400	खण्डेलवाल ग्लास वर्क्स
		(4) जलालपुर सासनी	706	निजी	कृषि	0.1130	सुरेंद्रपाल सिंह, वीरपाल सिंह, महेंद्र सिंह, जयपाल सिंह पुत्रगण चोब सिंह
		(5) नगला सिंह	296	निजी	कृषि	0.1380	राम सिंह पुत्र नारायण
			299	निजी	कृषि	0.2024	मुरली सिंह पुत्र सेवाराम
		(6) नगला सेवा	211	निजी	कृषि	0.0210	किशनपाल सिंह, धर्मपाल सिंह पुत्रगण राजवीर सिंह, हरप्यारी देवी पत्नी राजवीर सिंह, अमित कुमार सेंगर न. 11 वर्ष संरक्षिका माता सर्वेश सेंगर पत्नी सत्यपाल सिंह
			218	निजी	कृषि	0.1280	पुनीत कुमार, प्रवीण कुमार न. 14 वर्ष पुत्र प्रेमपाल सिंह संरक्षिका माता कान्तीदेवी, विक्रम सिंह, अशोक कुमार पुत्रगण राजाराम, सरवती देवी पत्नी राजाराम
			222	निजी	कृषि	0.0760	विजयपाल सिंह पुत्र रामलाल
		(7) पट्टी फतेली	193	निजी	कृषि	0.0570	तोताराम पुत्र खचेरा
		(8) गोहाना	21	निजी	कृषि	0.1070	शंकरलाल पुत्र नेकरी
		(9) नौजरपुर	29	निजी	कृषि	0.0200	खरगजीत पुत्र होतीलाल
			34	निजी	कृषि	0.0090	नन्नु सिंह, मूलचंद्र, लालाराम पुत्रगण गुलाब सिंह
			27	निजी	कृषि	0.0240	फूल सिंह पुत्र दाताराम
			योग	निजी	कृषि	0.0530	
		(10) ममौता खुर्द	508	निजी	कृषि	0.0400	बाबू सिंह, मुंशी सिंह, ओमप्रकाश सिंह अमित कुमार सिंह, दिलीप कुमार सिंह पुत्रगण रामस्वरूप, भगवती देवी पत्नी रामस्वरूप
			461	निजी	कृषि	0.1020	प्यारेलाल पुत्र तुलाराम
			462	निजी	कृषि	0.0920	चन्द्रप्रकाश, राजन सिंह पुत्रगण लखन सिंह श्रीमती महारानी देवी पत्नी सय0 लक्ष्मनसिंह

[फा. सं. 2010/एलएमएल/12/3-ईस्टर्न कॉरीडोर]

ओ. पी. सिंह, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं-1)

**MINISTRY OF RAILWAYS****(Railway Board)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th February, 2012

**S.O. 239(E).**— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 1291(E), dated the 20<sup>th</sup> April, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 3<sup>rd</sup> June, 2011 and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project, namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Mahamaya Nagar in the State of Uttar Pradesh.

And, whereas, the substance of the said notification has been published in the daily newspapers, namely, Dainik Jagaran, dated the 29<sup>th</sup> June, 2011 and Amar Ujala, dated the 29<sup>th</sup> June, 2011 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And, whereas, no objection has been received by the competent authority;

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

## SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district Mahamaya Nagar in the state of Uttar Pradesh.

Serial Numb	Name of Tahsil	Name of the Village	Survey Number	Types of land	Nature of land	Area in Hactares	Name of the land owner / interested Person
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Sadabad	(1) Mahrara	33	Private	Agriculture	0.0010	Pramod kumar Min. 6 year s/o chhabba Lal Gur. Mother smt. Urmila
			512	Private	Agriculture	0.0100	Devendra singh, Ram Vrijesh, Rajesh kumar s/o Ramesh, Vaikunthi devi w/o Ramesh.
			10	Private	Agriculture	0.0040	Ashok kumar, Vimal kumar, Durga prasad s/o Bangali.
			136	Private	Agriculture	0.0030	Mahendra Pratap singh s/o Jaipal singh.
			764	Private	Agriculture	0.0090	Jaipal singh s/o Durvin singh.
			757	Private	Agriculture	0.0590	Radhe shyam s/o Janki prasad.
			440	Private	Agriculture	0.0190	Baburam s/o Pokha.
			434	Private	Agriculture	0.0070	Geetam singh s/o dalla, Om Prakash, Rajveer s/o Antram, Narayan singh s/o Nand kishore, Ram dayal, Pappu, s/o chokha, Laturi singh, Khajan singh, Radhe shyam, Ramshay s/o Data ram, Duryodhan, Mahendra singh s/o Roshan Lal, Lal singh s/o Heera Lal, Jawala prasad s/o chituri, Munna Lal min. age 6 year Gur. smt. Gomli devi s/o Babu Lal.
			423	Private	Agriculture	0.0160	Geetam singh s/o Dalchand, Ram dayal, Babu Lal s/o chokhe Lal.
			424	Private	Agriculture	0.0130	Om Prakash s/o Aantram.
			426	Private	Agriculture	0.0750	Duryadhan, Mahendra singh s/o Roshan Lal.
			414	Private	Agriculture	0.0080	Laturi singh s/o dataram.
			360	Private	Agriculture	0.0180	Laxmi Narayan, Dindayal s/o pooran chand, sheeta devi w/o Jai prakash, Hariom, Om prakash s/o Surajpal, Satya prakash s/o Hubblal.
			139	Private	Agriculture	0.0600	Sahab singh s/o Mohan Lal.
			140	Private	Agriculture	0.0030	Sawraj prakash s/o Brijpal, Radharmen, Ater singh, Niranjn singh, Bhurat singh s/o kundan singh, sahab singh, Hakim singh s/o Mohan Lal, Rajendra singh, Vijendra singh s/o Ram swaroop, Makkhan singh s/o Shadi Lal, Pappu alias Raghuvveer s/o panna, Nihal singh s/o Har prasad.
			110	Private	Agriculture	0.0250	Bhagwati prasad s/o Ghanshyam.
			25	Private	Agriculture	0.0120	Babu Lal s/o khushi Lal.
			15	Private	Agriculture	0.0380	Sadhu, Ramprasad, Jogi, Perpu, s/o dev shukh, Umesh s/o sadhu.
			362	Private	Agriculture	0.0560	Rupendra kumar, dilip kumar, satendra kumar, Sushil kumar s/o krishan kumar.
			129	Private	Agriculture	0.0440	Uday bhan singh s/o Nihal singh.
			130	Private	Agriculture	0.0080	Ater singh s/o kundan singh.
			131	Private	Agriculture	0.0080	Niranjn singh s/o kundan
		(2) Sendaria	351	Private	Agriculture	0.0100	Bhuri singh, Ummed singh, Rajkumar, Sanjeev kumar s/o Jaiveer singh.
		(3) Manikpur	190	Private	Agriculture	0.0060	Naresh kumar s/o Gandhar singh, Munesh kumar s/o Tursi
							smt. Longsree wido. w/o Rajan singh, smt. Rambeti w/o Kaplan singh.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			278	Private	Agriculture	0.4080	Ramjee Lal s/o Netram.
			268	Private	Agriculture	0.0170	Dinesh chandra, Virendra kumar, Vinod kumar, Sanjay kumar s/o Ram prakash, Girish chandra s/o Geetam singh, Hari om s/o Gulab singh.
			191	Private	Agriculture	0.0190	smt. Longsree w/o Mahendra singh.
			198	Private	Agriculture	0.0880	Sugriv singh, Sudhir kumar, Manoj kumar, Neeraj kumar, Min Kanhaiya 14 year, Rahul 12 year s/o Dori Lal Gur. Mother Sharda devi, sharda devi w/o Dori Lal.
			269	Private	Agriculture	0.2490	Lotan singh s/o Samre.
			193	Private	Agriculture	0.0200	Netrapal s/o Mahendra singh.
		(4) Mekanpur	324	Private	Agriculture	0.0040	Suresh chandra, Ramesh chandra, Damoder, Bhuri singh s/o Tularam, Kamal singh, Lekhray s/o Ram Lal, Satya Prakash, Vinod kumar s/o Gaya Prasad, Tulsa devi w/o Gaya Prasad.
			429	Private	Agriculture	0.0120	Vimal kumar, Nirmal kumar alias Rinku Min 17 years s/o Bedram Gur. Mother Son devi, Son devi w/o Bedram, Rajkumar Min. 14 years Kali charan Min. 11 years, Raghuvir singh Min. 8 years, Sonu Min 5 years, Sanjeev Min. 1 years s/o Brahadev singh Gur. Mother Gangashree, Ganga shree w/o Brahadev, Rampal. Rajveer, s/o Paramasukh, Deepak Min. 4 years s/o Jaipal singh.
			362	Private	Agriculture	0.0450	Smundra s/o Nawab singh.
			366	Private	Agriculture	0.0370	Suresh chandra, Ramesh chandra, Damoder, Bhuri singh s/o Tularam, Satya Prakash, Vinod kumar s/o Gaya Prasad, Vimla devi w/o Lekhray.
			322	Private	Agriculture	0.0220	Shyamveer singh s/o Bhagwan singh, Tezveer singh, Mukesh kumar, Rajan singh, Ranveer singh, Omveer singh, s/o Godhan singh, smt. Prema devi w/o Godhan singh, Rajan singh, Rajan singh, Netrapal, Mahipal s/o Badan singh, Krishan kumar, Dinbandhu s/o Mahesh Dikchit
			430	Private	Agriculture	0.4440	Rajkumar Min. 14 years, Kali charan Min. 11 years, Raghuvir singh, Min. 8 years, Sonu Min. 5 years, Sanjeev Min. 1 years Gur. Gangashree Mother s/o Brahadev, smt. Gangashree w/o Brahadev, Rampal s/o Paramasukh, Deepak Min. 4 years Gur. Father shell for son Jaipal singh, Vimal kumar, Nirmal kumar alias Rinku s/o Vedram, smt. Son devi w/o Vedram, smt. Baikunthi devi w/o Laxmi Narayan.
			428	Private	Agriculture	0.0740	Balbeer singh s/o Ram chandra.
			421	Private	Agriculture	0.1100	smt. Saroj devi w/o Jaynti Prasad.
		(5) Isonda	624	Private	Agriculture	0.0240	Shyoraj singh s/o Ratan singh, Dharmesh kumari w/o Bani singh.
			623	Private	Agriculture	0.0130	Vijendra singh s/o Raghuvir singh.
			612	Private	Agriculture	0.0510	Sunil kumar s/o Shambhu Nath.
			609	Private	Agriculture	0.0170	Sunil kumar, Sushil kumar s/o Shambhu Nath.
			605	Private	Agriculture	0.0150	Dalveer shah s/o Rajan shah.
			602	Private	Agriculture	0.0360	Omveer shah s/o Rajan shah.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(6) Kokna khurd	80	Private	Agriculture	0.0310	Raghuveer singh, Sobran singh, Dilip singh s/o Girdam singh.
		(7) Kheria	184	Private	Agriculture	0.0180	Phool singh s/o Mulchandra, Nathuram s/o Mohan singh, Jai singh s/o Deviram.
			190	Private	Agriculture	0.0010	Surajpal, Rajveer s/o Hoti Maharaj singh, Bhagwati Prasad, Tursanpal singh, Pawan kumar s/o Late Roshan Lal, Mohershree devi w/o Roshan Lal.
			192	Private	Agriculture	0.0090	Surajpal, Rajveer s/o Hoti Maharaj singh, Bhagwati Prasad, Tursanpal singh, Pawan kumar s/o Late Roshan Lal, Mohershree devi w/o Roshan Lal.
			193	Private	Agriculture	0.0870	Phool singh s/o Mulchandra, Nathuram s/o Mohan singh, Jai singh s/o Deviram.
			185	Private	Agriculture	0.2020	Phool singh s/o Mulchandra, Nathuram s/o Mohan singh, Jai singh s/o Deviram.
		(8) Bhuklara	339	Private	Agriculture	0.0040	Shyo Prasad s/o Kishori.
			367	Private	Agriculture	0.0080	Viresh kumar Min. 6 years Gur. Mother Rajkumari son Suresh chandra, Raj kumari w/o Suresh chandra, Arvind s/o Vasdev, Amar singh, Balveer singh, Shankarpal, Ram Prakash s/o Jorawer.
			340	Private	Agriculture	0.0180	Karan singh s/o Veeri.
			553	Private	Agriculture	0.0110	Kali charan, Ratan singh, Ram Babu s/o Dori Lal.
			377	Private	Agriculture	0.0130	Krishan singh s/o Kanshiram, Hari singh, Satendra s/o Vijay singh, Ishwari Devi w/o Vijay singh.
			381	Private	Agriculture	0.0090	Ram chandra, Shyam Lal, Karan singh, Geetam s/o Chunni, Soran, Shree Krishan, Chandrbhan s/o Kali charan.
			382	Private	Agriculture	0.0250	Ram chandra, Shyam Lal, Karan singh, Geetam s/o Chunni, Soran, Shree Krishan, Chandrbhan s/o Kali charan.
			399	Private	Agriculture	0.1840	Shakur Moh. s/o Ram swaroop.
			404	Private	Agriculture	0.0364	Krishan singh s/o Kanshiram, Satendra s/o Vijay singh, Krishanpal singh s/o Jhammen singh.
			187	Private	Agriculture	0.0200	Ramcharan, Charan singh s/o Lalaram, Tilak singh s/o Ramjee Lal.
			190	Private	Agriculture	0.0110	Yogesh kumar No. 13 years son Chokhe Lal Gur. Mother Maya devi, Maya devi w/o chokhe Lal, Jagdish prasad s/o Devjeet.
			193	Private	Agriculture	0.0950	Girraj kaur w/o Ram ji Lal, Sushma devi w/o shiv singh.
			230	Private	Agriculture	0.0030	Dhermendra kumar s/o Ram Ji Lal, Smt. Bhagwan devi w/o Late Ram Ji Lal, Sumitra devi w/o Mahendrapal singh.
			143	Private	Agriculture	0.0340	Ram charan, Charan singh s/o Lalaram, Tilak singh s/o Ram ji Lal.
2.	Hathras	(1) Aihan	978	Private	Agriculture	0.1512	Ratan singh s/o Devjeet.
		(2) Pura khurd	680	Private	Agriculture	0.0710	Rameshwer, Dataran, Prabhu dayal, Munna Lal, s/o Gaiinda Lal.
			685	Private	Agriculture	0.0450	Radhe shyam s/o Novta
			701	Private	Agriculture	0.1996	Girraj Kishore, Nekse ram s/o Basanta.
			723	Private	Agriculture	0.0094	Mithlesh w/o Laxmi Narayan.
		(3) Pura kala	56	Private	Agriculture	0.0020	Bacchu singh s/o Kali charan, Patiram s/o Karan singh, sml. Meena w/o Bacchu singh, Mahaveer singh, Mahendra singh s/o Samenti singh.
			64	Private	Agriculture	0.0170	Ramswaroop s/o Kaihriya
			704	Private	Agriculture	0.0960	Krishan gopal singh s/o Ram swaroop.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			366	Private	Agriculture	0.0020	smt. Kamlesh w/o Geetam singh, Javitri devi w/o Daujiram.
			361	Private	Agriculture	0.0250	Ten sahab s/o Sikander khan.
			483	Private	Agriculture	0.0070	Surendra kumar s/o Dev Lal.
			686	Private	Agriculture	0.0010	Bhupal, Laxmi Narayan s/o Norangi Lal, Ramratan singh s/o Virendra singh, Bheem singh, Jhammen singh s/o Chiranji Lal, Daujiram, Bihari Lal s/o Sindh Jee, Ulfat, Bhoop singh s/o Sonpal, Hardayal singh, Pitamber singh s/o chhdmmi Lal, Tara chandra, Lal singh, Ashok kumar, chandan singh s/o Panna Lal.
			705	Private	Agriculture	0.0120	Krishan gopal singh s/o Ram swaroop.
			706	Private	Agriculture	0.0200	Mukesh kumar, Surendra kumar s/o Lal singh, Munni devi w/o Lal singh.
			707	Private	Agriculture	0.0810	Bhupal, Laxmi Narayan s/o Norangi Lal, Ramratan singh s/o Virendra singh, Bheem singh s/o Chiranji Lal, Gaytri devi w/o yadram Bihari Lal s/o Sindh Jee, Ulfat, Bhoop singh s/o Sonpal, Jai pyari devi w/o Krishan Lal, Tara chandra, Lal singh, Ashok kumar, prem shankar s/o Bhagwan singh.
			685	Private	Agriculture	0.1210	Bhupal, Laxmi Narayan s/o Norangi Lal, Ramratan singh s/o Virendra singh, Bheem singh s/o Chiranji Lal, Gaytri devi w/o yadram Bihari Lal s/o Sindh Jee, Ulfat, Bhoop singh s/o Sonpal, Jai pyari devi w/o Krishan Lal, Tara chandra, Lal singh, Ashok kumar, Prem shankar s/o Bhagwan singh.
			688	Private	Agriculture	0.1200	Bhupal, Laxmi Narayan s/o Norangi Lal, Ramratan singh s/o Virendra singh, Bheem singh s/o Chiranji Lal, Gaytri devi w/o yadram Bihari Lal s/o Sindh Jee, Ulfat, Bhoop singh s/o Sonpal, Jai pyari devi w/o Krishan Lal, Tara chandra, Lal singh, Ashok kumar, Prem shankar s/o Bhagwan singh.
			689	Private	Agriculture	0.0500	Mouher singh s/o Nannu singh.
			682	Private	Agriculture	0.4100	Mouher singh s/o Nannu singh.
			476	Private	Agriculture	0.0340	Saleem s/o Sikander.
			61	Private	Agriculture	0.4630	Ramswaroop s/o Kaihniya, Ramesh chandra s/o Balwant singh.
		(4) Veernagar	85	Private	Agriculture	0.0850	Munni devi sharma alias Madhuri sharma w/o Late Mahesh chandra sharma.
			99	Private	Agriculture	0.0010	Mulchand sharma s/o Radha Krishan sharma, Narendra kumar sharma, Vijay kumar sharma s/o Raj kumar sharma.
			42	Private	Agriculture	0.0930	Raj kumari w/o Mulchandra.
			41	Private	Agriculture	0.3900	Prempal s/o Chhitterpal.
			48	Private	Agriculture	0.0090	Fateh singh s/o Daulatram, Puspa devi w/o fateh singh.
			138	Private	Agriculture	0.0080	Avdhesh kumar, Ravendra kumar s/o Banvari Lal, Meghshyam s/o Makkhan, Ramwoti w/o Komal prasad.
			39	Private	Agriculture	0.0020	Babu Lal s/o Chhitterpal.
			40	Private	Agriculture	0.0800	Vijaypal s/o chhitterpal.
			49	Private	Agriculture	0.0180	Ravendra kumar, Yatendra kumar s/o Mulchand.
			90	Private	Agriculture	0.1650	Shree Niwas s/o Raghunanden.
			145	Private	Agriculture	0.1250	Jaswant singh s/o Dumber.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			156	Private	Agriculture	0.0230	Mahendra singh, Yogendra Pal singh, Om Prakash s/o Jhunny Lal, Ravendra kumar, Shishupal, Rohitash s/o Ram Prasad, smt. Jaldevi wido Ram prasad, Ram chandra, Gulab singh s/o Bhuri singh, chandrapal s/o Tez singh, Jaswant s/o Dumber, Narayan singh, Dulichandra s/o Deep chandra, Rajendra singh, Umesh chandra min. 11 years s/o Hoti Lal Gur. Bhudevi Mother, smt. Bhudevi w/o Late. Hoti Lal, Mormukul, Pramod kumar s/o shankar Lal.
			157	Private	Agriculture	0.0300	Ku. Poonam D/o Vijay Pal.
3.	Sasni	(1) Lutsan	232	Private	Agriculture	0.0360	Durjan singh s/o Dharam singh, Ravendra singh, Satyapal singh s/o Sukhram singh.
			231	Private	Agriculture	0.0120	Madan s/o Manshi charan.
			245	Private	Agriculture	0.9080	Nihal singh, Ram dayal s/o Gokul singh, Ravendra singh, Satyapal singh s/o Sukhram singh, Hardevi w/o Mahendra singh.
			779	Private	Agriculture	0.1240	Ram singh, Keshav dev s/o Yadram.
			781	Private	Agriculture	0.0400	Sukhram s/o Dal chandra.
			781	Private	Agriculture	0.0400	Babu Lal s/o Ghure singh.
			783	Private	Agriculture	0.0402	Neksa s/o Murli.
			783/2	Private	Agriculture	0.0402	Shankar Lal s/o Sukhram.
			783	Private	Agriculture	0.0406	Shobha ram, Rajpal, Mihi Lal s/o Ram Lal, Raju, Ram khiladi s/o Ishwari.
			784	Private	Agriculture	0.0705	Kusma devi w/o Mahtab singh.
			784	Private	Agriculture	0.0705	Kali charan s/o sukhran.
			787	Private	Agriculture	0.0050	Kusma devi w/o Mahtab singh.
			787	Private	Agriculture	0.0060	Kali charan s/o sukhran.
		(2) Sitahari	77	Private	Agriculture	0.0024	Lala ram, Chandrapal s/o Ntharam.
			93	Private	Agriculture	0.1890	Gainda singh s/o Khyaliram.
			94	Private	Agriculture	0.0070	Durjan singh s/o Babu singh.
			130	Private	Agriculture	0.0070	Durjan singh s/o Babu singh.
			96	Private	Agriculture	0.0900	Durjan singh s/o Babu singh, Rajkumari w/o Nannu singh.
			327	Private	Agriculture	0.2160	Shakuntla devi w/o Lalta Prasad.
		(3) Virra	495	Private	Agriculture	0.0400	Khandelwal Glass works.
		(4) Jalalpur Sasni	706	Private	Agriculture	0.1130	Surendrapal singh, Veerpal singh, Mahendra singh, Jaipal singh s/o Chob singh.
		(5) Nagla singh	296	Private	Agriculture	0.1380	Ram singh s/o Narayan.
			299	Private	Agriculture	0.2024	Murli singh s/o Sewa ram.
		(6) Nagla Sewa	211	Private	Agriculture	0.0210	Krishan pal singh, Dharampal singh s/o Rajveer singh, Harpyari devi w/o Rajveer singh, Amit kumar Senger Min. 11 years Gur. Mother Survesh senger w/o Satyapal singh.
			218	Private	Agriculture	0.1280	Puneet kumar, Praveen kumar min. 14 years son Prempal singh Gur. Mother Kanti devi, Vikram singh, Ashok kumar s/o Rajaram, Serwati devi w/o Rajaram.
			222	Private	Agriculture	0.0760	Vijaypal singh s/o Ram Lal.
		(7) Patti Fateli	193	Private	Agriculture	0.0570	Totaram s/o Khchera.
		(8) Gohana	21	Private	Agriculture	0.1070	Shankar Lal s/o Nekse.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(9) Naujarpur	29	Private	Agriculture	0.0200	Khragjeet s/o Hoti Lal.
			34	Private	Agriculture	0.0090	Nannu singh, Mulchandra, Lalaram s/o Gulab singh.
			27	Private	Agriculture	0.0240	Phool singh s/o Dataram.
		(10) Mamauta Khurd	508	Private	Agriculture	0.0400	Babu singh, Munshi singh, Om Prakash singh, Amit kumar singh, Dilip kumar singh s/o Ram swaroop, Bhagwati devi w/o Ram swaroop.
			461	Private	Agriculture	0.1020	Pyare Lal s/o Tularam.
			462	Private	Agriculture	0.0920	Chandra Prakash, Rajan singh s/o Laxman singh, smt. Maharani devi w/o Late Laxman singh.

[F. No. 2010/LML/12/3-Eastern Corridor]  
O. P. SINGH, Executive Director (Land and Amenities-1)